



Z62-H370.01 S5W2

वायुचलित टेपर परिवर्तन

आइटम नंबर 10403014

उच्च गति की मिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, एनग्रेविंग के लिए HF-स्पिंडल

स्टॉक

हाइब्रिड बॉल बियरिंग (नग) 3

जीवनकाल लुब्रीकेशन (स्निग्धीकरण) अनुरक्षण से मुक्त

मोटर

मोटर प्रौद्योगिकी 3-चरणीय अतुल्यकालिक ड्राइव (ब्रशरहित और सेंसररहित)

आवृत्ति 1.167 HZ

मोटर ध्रुवों (जोड़ों) की संख्या 1

मूल्यांकित गति 70.000 rpm

त्वरण / मंदी 10.000 मि प्रति सेकंड (परामर्श के पश्चात् अन्य मान)


विद्युत शक्तिमान

ठंडा तरल पदार्


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
मूल्यांकित पावर	2,1	1,3	1,2	[kW]
टॉर्क	0,48	0,24	0,22	[Nm]
वोल्टेज	214	206	206	[V]
धारा	11	6,5	6,1	[A]

Z62-H370.01 S5W2

वायुचलित टेपर परिवर्तन
आइटम नंबर 10403014



माप



पावर चित्र

ठंडा तरल पदार्

कार्य-निष्पादन मापन आंतरिक इंजन टेस्ट बेड पर होता है

सुविधाएं

इंजन गति सेंसर	ट्रंसमीटर (TTL) सिग्नल = 6
मोटर सुरक्षा	PTC 160° C
हाउज़िंग	स्टेनलेस स्टील
हाउज़िंग व्यास:	61,9 मिमी
कूलिंग	ठंडा तरल पदार्थ
ऑपरेंटिंग परिवेश के तापमान	+ 10° C ... + 45° C
सीलिंग हवा	
सुरक्षा (सीलिंग एयर चालू की गई)	IP54
शंकु सफाई	
औजार विनियम	वायुचलित टेपर परिवर्तन
उपकरण का स्थिरता	HSK-E 20
औजार शंकु निगरानी	प्रेरक
1 स्थिति	कसा हुआ
तक चकिंग क्षमता	6 मिमी
दक्षिणावर्त और बामावर्त घूर्णन	
मेल संयोजक	9-पिन (SpeedTEC)
भार	~ 5,6 किग्रा
रेडियल रनआउट आंतरिक शंकु	< 1 μ
रन-आउट (ठहरना)	< 1 μ